



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ 1932 (श0)
(सं0 पटना 363) पटना, मंगलवार, 15 जून 2010

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

27 अप्रील 2010

सं0 बी०/परि०-05-1001/2010-451—विधि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 1841/जे०-18141, दिनांक 15 अप्रील 2010 के द्वारा श्री प्रशान्त कुमार शाही, महाधिवक्ता, बिहार को मंत्री स्तर की सुविधा प्रदत्त की गयी है।

श्री प्रशान्त कुमार शाही, महाधिवक्ता, बिहार को मंत्री स्तर की सुविधा प्राप्त होने के कारण बिहार राज्य अनुपूर्वी सूची 1988 के क्र०सं०-7 के अंश 'ख' में महाधिवक्ता के नाम की प्रविष्टि की जाती है जो श्री प्रशान्त कुमार शाही के कार्यकाल तक प्रभावी रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अफजल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 363-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>